



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3592]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 5, 2019/कार्तिक 14, 1941

No. 3592]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 5, 2019/KARTIKA 14, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

(अन्वेषण अनुभाग-V)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2019

**का.आ. 3986(अ).**—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 280क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, उक्त उप-धारा के प्रयोजनों के लिए उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए विशेष न्यायालय के रूप में सारणी के स्तंभ (2) में निम्नलिखित न्यायालय को नामनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:—

सारणी

क्रम सं.	न्यायालय	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अहमदाबाद (ग्रामीण)	अहमदाबाद (ग्रामीण)
2.	महानगर मजिस्ट्रेट, अहमदाबाद	अहमदाबाद नगर
3.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गांधीनगर	गांधीनगर जिला
4.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मेहसाना	मेहसाना जिला
5.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भावनगर	भावनगर जिला
6.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बोटाड	बोटाड जिला

7.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुरेन्द्रनगर	सुरेन्द्रनगर जिला
8.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पालानपुर	बनासकांठा जिला
9.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हिम्मतनगर	साबरकांठा जिला
10.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मोडासा	अरावली जिला
11.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटान	पाटान जिला
12.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वडोदरा	वडोदरा जिला
13.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आनन्द	आनन्द जिला
14.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नादियाड	नादियाड जिला में खेडा
15.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भरूच	भरूच जिला
16.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दाहोद	दाहोद जिला
17.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजपीपला	राजपीपला जिला में नर्मदा
18.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लूनावाडा	महिसागर जिला
19.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, छोटोउदयपुर	छोटोउदयपुर जिला
20.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोधरा	गोधरा जिला में पंचमहल
21.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजकोट	राजकोट जिला
22.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गांधीधाम	गांधीधाम, जिला कच्छ
23.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भुज	कच्छ जिला (गांधीधाम के अतिरिक्त)
24.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मोरवी	मोरवी जिला
25.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जूनागढ़	जूनागढ़ जिला
26.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वेरावल	गिर सोमनाथ जिला में वेरावल
27.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अमरेली	अमरेली जिला
28.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जामनगर	जामनगर जिला
29.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पोरबन्दर	पोरबन्दर जिला
30.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खामभालीया	देवभूमि द्वारका जिला में खामभालीया
31.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरत	सूरत जिला
32.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नवसारी	नवसारी जिला
33.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वापी	वापी
34.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वलसाड	वलसाड जिला (वापी के अतिरिक्त)
35.	अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, व्यारा	तापी

[फा. सं. 285/10/2019-आईटी(अन्वेषण V) सीबीडीटी]

तारीख 05-11-2019 की अधिसूचना संख्या 87/2019

डॉ. जाकिर थॉमस, आयकर आयुक्त (ओ.एस.डी) (अन्वेषण), सीबीडीटी

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Revenue)**  
**(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**  
**(INVESTIGATION DIVISION-V)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th November, 2019

**S.O. 3986(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 280A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, in consultation with the Chief Justice of the High Court of Gujarat, hereby designates following Court mentioned in column (2) of the Table below as the Special Court for the area specified in the column (3) of the said Table, for the purposes of said sub-section, namely:-

**TABLE**

Serial Number	Court	Area
(1)	(2)	(3)
1.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Ahmedabad (Rural)	Ahmedabad (Rural).
2.	Metropolitan Magistrate, Ahmedabad	Ahmedabad City.
3.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Gandhinagar	Gandhinagar District.
4.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Mahesana	Mehsana District.
5.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Bhavnagar	Bhavnagar District.
6.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Botad	Botad District.
7.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Surendranagar	Surendranagar District.
8.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Palanpur	Banaskantha District.
9.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Himatnagar	Sabarkantha District.
10.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Modasa	Arvalli District.
11.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Patan	Patan District.
12.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Vadodara	Vadodara District.
13.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Anand	Anand District.
14.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Nadiad	Kheda at Nadiad District.
15.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Bharuch	Bharuch District.
16.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Dahod	Dahod District.
17.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Rajpipla	Narmada at Rajpipla District.
18.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Lunavada	Mahisagar District.
19.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Chhotaudepur	Chhotaudepur District.
20.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Godhra	Panchmahals at Godhra District.
21.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Rajkot	Rajkot District.
22.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Gandhidham	Gandhidham District Kachhh.
23.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Bhuj	Kachhh District (except Gandhidham).

24.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Morbi	Morbi District.
25.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Junagadh	Junagadh District.
26.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Veraval	Gir Somnath District at Veraval.
27.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Amreli	Amreli District.
28.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Jamnagar	Jamnagar District.
29.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Porbandar	Porbandar District.
30.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Khambhaliya	Devbhumi Dwaraka District at Khambhaliya.
31.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Surat	Surat District.
32.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Navsari	Navsari District.
33.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Vapi	Vapi.
34.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Valsad	Valsad District (except Vapi).
35.	Additional Civil Judge and Judicial Magistrate First Class, Vyara	Tapi.

[F. No. 285/10/2019-IT (Inv.V) CBDT]

Notification No. 87/2019 dated 05-11-2019

Dr. ZAKIR THOMAS, Commissioner of Income Tax (OSD) (INV.), CBDT